



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रतिभार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 14, 1982/पौष 24, 1903

No. 17]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 1982/PAUSA 24, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1982

का.अ. 20(अ).—केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29ख की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्योगों से सम्बन्धित सभी औद्योगिक उपक्रमों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 10, 11, 11क और 13 तथा तद्भीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन से छूट देती है, अर्थात् :—

दे. विनिर्माण की ऐसी वस्तुएं नहीं होंगी जो भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. 98अ/उ. वि. वि. अ./29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं।

2. औद्योगिक उपक्रम, आयातित कच्चे माल या आयातित पूंजी माल की अपेक्षा नहीं करेगा या विदेशी सहयोग अन्तर्विलित नहीं करेगा।
3. औद्योगिक उपक्रम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (1969 का 54) या विदेशी मूद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के क्षेत्र में नहीं आता है।

यह भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या का.अ. 98अ/ओ.वि.वि. अ./29ख/73/1, तारीख 16 फरवरी, 1973 के अतिरिक्त है, न कि उसके उल्लिखण में।

अनुसूची

ऊर्जा के वैकल्पिक साधन जैसे सौर आतयन, वायुशक्ति जीव रस सहित जीव मास भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति और समुद्रीय शक्ति के समुपयोगन के लिए उपस्कर।

[फाइल सं 10/91/81-एल पी]

एस. एल. कपूर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF INDUSTRY**  
**(Department of Industrial Development)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th January, 1982

**S.O. 20(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby exempts from the operation of sections 10, 11, 11A and 13 of the said Act and the rules made thereunder all industrial undertakings pertaining to the industries specified in the Schedule to this notification, subject to the following conditions, namely :—

1. The articles of manufacture shall not be an article specified in Schedule I to the notification of the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development) No. 98E/IDRA/29B/73/1, dated the 16th February, 1973 as amended from time to time.

2. The industrial undertaking shall not require imported raw materials or imported capital goods or involve foreign collaboration.

3. The industrial undertaking does not fall within the purview of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969 (54 of 1969) or within the purview of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973).

This is in addition to and not in derogation of notification No. S. O. 98E/IDRA/29B/73/1, dated 16th February, 1973 of the late Ministry of Industrial Development (Department of Industrial Development).

**SCHEDULE**

Equipment for exploitation of alternate source of energy like solar insolation, wind power, bio-mass including bio-gas, geo-thermal energy, tidal power and sea power.

[File No. 10/91/81-I.P]

S. L. KAPUR, Jt. Secy.